

प्रारूप (Form) 4

(नियम 65 देखिये) (see Rule 65)

जल प्रदाय के लिए मांग हेतु आवेदन-पत्र Application for supply of water on demand

मूल Original

1. ग्राम का नाम.....
Name of Village.
2. उस कार्य का नाम जिसके अधीन स्थित है
Work under which situated
3. नाम डिस्ट्रीब्यूटरी या माइनर जिसने जल अपेक्षित है.....
Name of distributory or minor From which water is required.
4. निकास का फासला जहां से जल अपेक्षित है.....
Chainage of outlet from which Water is required
5. सिंचित किये जाने वाली फसल का नाम.....
Name of crop to be irrigated,
6. सिंचाई अपेक्षित लगभग क्षेत्र.....
Approximate area demanding irrigation
7. अगर फसल धान की है तो संबंधित चक या ब्लाक में का धान का लगभग क्षेत्र.....
In the case of rice, approximate area of rice in the chak or block concerned.
8. वह तारीख जिसको कि सिंचाई अपेक्षित है.....
Date on which Irrigation is required.
9. उन दखलदारों के नाम जिन्हें सिंचाई की अपेक्षा है.....
Name of occupiers requiring irrigation.

दूसरी प्रति Duplicate

1. ग्राम का नाम.....
Name of Village
2. उस कार्य का नाम जिसके अधीन स्थित है
Work under which situated
3. नाम डिस्ट्रीब्यूटरी या माइनर जिसने जल अपेक्षित है.....
Name of distributory or minor From which water is required.
4. निकास का फासला जहां से जल अपेक्षित है.....
Chainage of outlet from which Water is required.
5. सिंचित किये जाने वाली फसल का नाम.....
Name of crop to be irrigated,
6. सिंचाई अपेक्षित लगभग क्षेत्र.....
Approximate area demanding irrigation
7. अगर फसल धान की है तो संबंधित चक या ब्लाक में का धान का लगभग क्षेत्र.....
In the case of rice, approximate area of rice in the chak or block concerned.
8. वह तारीख जिसको कि सिंचाई अपेक्षित है
Date on which Irrigation is required.
9. उन दखलदारों के नाम जिन्हें सिंचाई की अपेक्षा है.....
Name of occupiers requiring irrigation.

तीसरी प्रति Triplicate

1. ग्राम का नाम
Name of Village
2. उस कार्य का नाम जिसके अधीन स्थित है
Work under which situated
3. नाम डिस्ट्रीब्यूटरी या माइनर जिसने जल अपेक्षित है.....
Name of distributory or minor From which water is required.
4. निकास का फासला जहां से जल अपेक्षित है.....
Chainage of outlet from which Water is required.
5. सिंचित किये जाने वाली फसल का नाम.....
Name of crop to be irrigated,
6. सिंचाई अपेक्षित लगभग क्षेत्र.....
Approximate area demanding irrigation
7. अगर फसल धान की है तो संबंधित चक या ब्लाक में का धान का लगभग क्षेत्र
In the case of rice, approximate area of rice in the chak or block concerned.
8. वह तारीख जिसको कि सिंचाई अपेक्षित है
Date on which Irrigation is required.
9. उन दखलदारों के नाम जिन्हें सिंचाई की अपेक्षा है
Name of occupiers requiring irrigation.

हम हधोहस्ताक्षरी ऊपर विनिर्दिष्ट फसल की सिंचाई के लिये जल की अपेक्षा करते हैं, व करार करते हैं कि ऐसी सिंचाई के लिए मांग की दर पर भुगतान करेंगे। हम यह जानते हैं कि जल ऐसे समयों पर तथा ऐसी मात्राओं में जैसा कि कार्यपालन यंत्री आदेश दें, दिया जायेगा तथा हम में से किसी पर भी शोध्य वे धनराशियां, जिनका कि भुगतान नियत तारीख तक न किया जाये भू-राजस्व की बकायाओं की भांति वसूली योग्य होगी और यह कि ऊद्ग्रहीत किये जाने वाले प्रभारों के संबंध में कार्यपालन यंत्री का निर्णय अन्तिम होगा। तथा उसके विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत

नहीं होगी। हम यह भी जानते हैं कि जल प्रदाय के लिये हमारे आवेदन पत्र तथा उस पर पारित आदेश के विरुद्ध प्रतिकर के लियेकोई भी दावा या तो राज्य सरकार के रुद्ध या उसके अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं होगा ।

We the undersigned , require water for he irrigation of the crop specified above and agree to pay for it at the demand rate, We understand that water will be issued at such times and in such quantities as the Executive Engineer may order and that any sums due from any of us which are not paid by the date fixed will be recoverable as arrears of land revenue and that the decision of he Executive engineer regarding charge to be levied is final and that no appeal shall lie against it. We also know that no suit for compensation lies either against the State Government or its officers in connection with our application for the supply of water and any order passed the reon.

हम हधोहस्ताक्षरी ऊपर विनिर्दिष्ट फसल की सिंचाई के लिये जल की अपेक्षा करते हैं, व करार करते हैं कि ऐसी सिंचाई के लिए मांग की दर पर भुगतान करेंगे। हम यह जानते हैं कि जल ऐसे समयों पर तथा ऐसी मात्राओं में जैसा कि कार्यपालन यंत्री आदेश दें, दिया जायेगा तथा हम में से किसी पर भी शोध्य वे धनराशियां, जिनका कि भुगतान नियत तारीख तक न किया जाये भू-राजस्व की बकायाओं की भांति वसूली योग्य होगी और यह कि ऊद्ग्रहीत किये जाने वाले प्रभारों के संबंध में कार्यपालन यंत्री का निर्णय अन्तिम होगा। तथा उसके विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत

नहीं होगी। हम यह भी जानते हैं कि जल प्रदाय के लिये हमारे आवेदन पत्र तथा उस पर पारित आदेश के विरुद्ध प्रतिकर के लियेकोई भी दावा या तो राज्य सरकार के रुद्ध या उसके अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं होगा ।

We the undersigned , require water for he irrigation of the crop specified above and agree to pay for it at the demand rate, We understand that water will be issued at such times and in such quantities as the Executive Engineer may order and that any sums due from any of us which are not paid by the date fixed will be recoverable as arrears of land revenue and that the decision of he Executive engineer regarding charge to be levied is final and that no appeal shall lie against it. We also know that no suit for compensation lies either against the State Government or its officers in connection with our application for the supply of water and any order passed the reon.

हम हधोहस्ताक्षरी ऊपर विनिर्दिष्ट फसल की सिंचाई के लिये जल की अपेक्षा करते हैं, व करार करते हैं कि ऐसी सिंचाई के लिए मांग की दर पर भुगतान करेंगे। हम यह जानते हैं कि जल ऐसे समयों पर तथा ऐसी मात्राओं में जैसा कि कार्यपालन यंत्री आदेश दें, दिया जायेगा तथा हम में से किसी पर भी शोध्य वे धनराशियां, जिनका कि भुगतान नियत तारीख तक न किया जाये भू-राजस्व की बकायाओं की भांति वसूली योग्य होगी और यह कि ऊद्ग्रहीत किये जाने वाले प्रभारों के संबंध में कार्यपालन यंत्री का निर्णय अन्तिम होगा। तथा उसके विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत

नहीं होगी। हम यह भी जानते हैं कि जल प्रदाय के लिये हमारे आवेदन पत्र तथा उस पर पारित आदेश के विरुद्ध प्रतिकर के लियेकोई भी दावा या तो राज्य सरकार के रुद्ध या उसके अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं होगा ।

We the undersigned , require water for he irrigation of the crop specified above and agree to pay for it at the demand rate, We understand that water will be issued at such times and in such quantities as the Executive Engineer may order and that any sums due from any of us which are not paid by the date fixed will be recoverable as arrears of land revenue and that the decision of he Executive engineer regarding charge to be levied is final and that no appeal shall lie against it. We also know that no suit for compensation lies either against the State Government or its officers in connection with our application for the supply of water and any order passed the reon.

उन दखलदारों के नाम जिन्हें 1-----
सिंचाई की अपेक्षा हो । 2-----
Names of occupiers 3.....
requiring irrigation 4.....